



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 27.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **फायर सर्विस टीम द्वारा कबरई क्षेत्र में किया गया सैनेटाइजेशन का कार्य**

दिनांक 26.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19 संक्रमण** को देखते हुए प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया एवं लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया गया।

कबरई थाना क्षेत्र के छंगा चौराहा, गल्ला मण्डी, सब्जी मण्डी, मेन बाजार, थाना कबरई परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि जगहों पर सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 27.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा शहर में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति किया सचेत एवं जरूरतमंदों को वितरित किये मास्क**

कहा गया। साथ ही बार-बार अपने नाक/मुँह को छुने से बचे व हाथों को बार-बार साबुन/पानी से धोते रहने की सलाह गई। इसके साथ ही उन्हें नारी शक्ति का अहसास कराते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान टीम द्वारा कई जरूरतमंदों को मास्क का वितरण भी किया गया।



आज दिनांक 27.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह मय टीम द्वारा शहर के मुख्य बाजार/मोहल्लो में भ्रमण कर बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति बालिकाओं/महिलाओं को सचेत करते हुए उन्हें अपने घरों पर ही रहने की हिदायत दी गई एवं घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर 02 गज की दूरी बनाये रखने को

